

@shahjahanpupol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 28/04/2021

थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

04 शातिर चोरो को किया गिरफ्तार, चोरी किया गया सामान बरामद।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्र में, श्री संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में तथा श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के निकट पर्यवेक्षण में थाना तिलहर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली।

दिनांक 25.04.2021 की रात्रि में वादी मुकदमा श्री राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला हिन्दूपट्टी कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर के खेत में लगे इंजन का सामान चोरी हो गया था। जिसमें वादी ने अपने परिवार के सहयोग से दिनांक 27.04.2021 को भक्सी तिराहे के पास दो चोर 1-धर्मेन्द्र कश्यप पुत्र रामप्रसाद निवासी मो० घैरचौबा व 2-ओमकार पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी मो० दोदराजपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में चोरो ने इंजन का सामान पंखा बैण्ड व सेक्सन पाईप चोरी करके बाबू व वसीम पुत्रगण सद्दीक निवासी बहादुरगंज कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर की कबाड़ी की दुकान पर 900 रुपये में बेचा है तथा उनकी निशानदेही पर उक्त कबाड़ी की दुकान से चोरी गये सभी सामान को बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पर मु०अ०स० 307/21 धारा 379/411 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण को बाद विधिक कार्यवाही मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभि० गण का विवरण:-

1. धर्मेन्द्र कश्यप पुत्र रामप्रसाद निवासी मो० घैरचौबा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. ओमकार पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी मो० दोदराजपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. बाबू पुत्र सद्दीक निवासी बहादुरगंज कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
4. वसीम पुत्र सद्दीक निवासी बहादुरगंज कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०स० 307/21 धारा 379/411 भादवि

बरामदगी का विवरण -

1. एक पंखा श्रीराम कम्पनी
2. एक अदद बैण्ड
3. एक सेक्सन पाईप
4. फुटबाल 10 एमएम
5. फिन्लव